



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 416/79-वि-1-2023-1-क-15-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश कृषि शिक्षा एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में विधेयक एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
45 सन् 1958 की  
धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में विद्यमान खण्ड-(झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(झ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा या महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर से है।”

धारा-2-क का  
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-2-क में,-

(क) उपधारा (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1-ग) उपधारा (1), (1-क) और (1-ख) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर के रूप में जाना जायेगा, की स्थापना की जायेगी।”

(ख) उप-धारा (2) में शब्द और अंक "उप-धारा (1) या उप-धारा (1-क) या उपधारा (1-ख)" के स्थान पर शब्द और अंक "उप-धारा (1), (1-क) या (1-ख)" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का  
संशोधन

4-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या-2 के स्तम्भ-3 की प्रविष्टि से शब्द "गोरखपुर", "बस्ती" और "आजमगढ़" मण्डल" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या-5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और इससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

6	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर	गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़
---	---	-------------------------

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण लोगों के लाभ हेतु और कृषि के विकास में कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करने तथा निगमित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958) अधिनियमित किया गया है।

कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लाभों को उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के कृषकों हेतु अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाने तथा पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों को कृषि शिक्षा का लाभ उनके निवास स्थान के निकट उपलब्ध कराने हेतु जिला कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय) संशोधन (विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 416(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-15-2023

Dated Lucknow, August 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Shiksha evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Krishi Shiksha evam Anusandhan Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023

(U.P. Act no. 16 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023. Short title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (hereinafter referred to as the "principal Act") for the existing clause (l), the following clause shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 2 of U.P. Act no. 45 of 1958

"(l) University means the Gobind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Acharya Narendra Deva Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Chandrashekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya or the Banda Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Banda or the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar, as the case may be."

3. In section 2-A of the principal Act,-

(a) *after* sub-section (1-B), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

Amendment of section 2-A

"(1-C) Besides the Universities referred to in sub-sections (1), (1-A) and (1-B) there shall be established, with effect from such date as the State Government may by notification in *Gazette* appoint in this behalf, a University at Kushinagar to be known as the Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar."

(b) in sub-section (2), for the words and figures "sub-section (1) or sub-section (1-A) or sub-section (1-B)", the words and figures "sub-sections (1), (1-A), (1-B) or (1-C)" shall be *substituted*.

4. In the Schedule to the principal Act,-

Amendment of Schedule

(a) from the entries in column-3 of serial number-2, the words "Gorakhpur", "Basti" and "Azamgarh" shall be *omitted*;

(b) *after* serial number-5, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely :-

6	Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kushinagar	Gorakhpur, Basti and Azamgarh Divisions
---	--	---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P. Act no. 45 of 1958) has been enacted to establish and incorporate Agriculture Universities for the development of agriculture in, and for the benefit of rural people of the State of Uttar Pradesh.

In order to make the benefits of new technology and research in the field of agriculture more accessible to the farmers of Purvanchal region of the State Uttar Pradesh, and to provide the benefits of agriculture education to the students of Purvanchal region near their place of residence, it has been decided to amend the aforesaid Act to establish Mahatma Buddha Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya in district Kushinagar.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2023 is introduced accordingly.

By order,  
ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 517 राजपत्र-2023-(1655)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 86 सा० विधायी-2023-(1656)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।